

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540] नई दिल्ली शनिवार दिनांक 18 1976/अग्रहायण 27, 1898

No. 540] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1976/AGRAHAYANA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 18th December 1976

S.O. 802(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Sephinjuri Bheel Tea Estate, P. O. Medley, situated in the district of Cachar, Assam owned by Messrs by Basantipur Tea Company Private Limited, 138, Biplabi Rashbehari Bose Road, Calcutta-1, that,—

- the average yield of the tea unit during the years 1971 to 1975 has been lower than the district average yield by twenty-five per cent;
- the persons owing the tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues of workers and other employees, and other dues as they are under an obligation to pay under certain laws for the time being in force; and
- the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 18B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of:—

- Shri S. S. Nandkeolyar, Director of Tea Development, Tea Board, Calcutta.
- Shri P. K. Das Gupta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta.
- Shri B. K. Bhuyan, Agricultural Production Commissioner, Government of Assam, Dispur, Gauhati-6.

4. Shri S. P. Singh, Cost Accounts Officer, Bureau of Public Enterprises, New Delhi.

2. The said body shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. B. 12012(15)/76-Plant(A)]

P. K. KAUL, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1976

का० प्रा० 802 (अ).—केन्द्रीय सरकार की, मैसर्स बसन्तीपुर टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, 138, विल्बी रास बिहारी बोस रोड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन, आसाम के कछार जिले में स्थित सेफिन्जुरी भील टी एस्टेट, डाकघर-मेंडली नामक चाय एकक की बाबत यह राय है कि :—

(क) वर्ष 1971 से 1975 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत कम रही है ;

(ख) चाय एकक के स्वामियों ने कर्मकारों तथा अन्य कर्मचारियों के भविष्य निधि देयों तथा ऐसे अन्य देयों का, जिनका संदाय करने के लिए वे तत्समय प्रवृत्त कृतिपय विधियों के अधीन बाध्य हैं, संदाय करने में बारम्बार व्यक्तक्रम किया है ; और

(ग) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोक हित के लिए बहुत अहितकर है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के मामलों का पूर्ण और व्यापक अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती हैं जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. श्री एस० एस० नन्दकुलियार, निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड, कलकत्ता
2. श्री पी० के० दासगुप्त, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड, कलकत्ता
3. श्री बी० के० भुयां, कृषि उत्पाद आयुक्त, आसाम सरकार, दीसपुर, गोहाटी-6
4. श्री एस० पी० सिंह, लागत लेखा अधिकारी, लोक उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[सं० बी० 12012(15)/76-प्लान्ट (ए)]

पी० के० कोल, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मूद्रित तथा
निर्धनक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976